

Jamna Auto Industries Ltd.

November 22, 2022

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Maharashtra

BSE Code: 520051

To, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051, Maharashtra **NSE Code: JAMNAAUTO**

Subject: Newspaper Advertisement –Postal Ballot Notice & Remote E-voting.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copy of newspaper advertisements dated November 22, 2022 published in Business Standard (All Editions) and Jansatta (Delhi & Chandigarh Edition) dated November 22, 2022 pertaining to Postal Ballot Notice and remote e-voting related information.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you, Yours Faithfully, **For Jamna Auto Industries Limited**

Praveen Lakhera Company Secretary& Head-Legal

Encl.: As Above

Specialists short by 80% at community health centres

Hit by Covid, states' social sector expenditure increased during 2020-21

INDIVJAL DHASMANA New Delhi, 21 November

ealth specialists such as surgeons, obstetrician and gynaecologists, and physicians are awfully short of requirement of state community health centres (CHCs), showed data from the Reserve Bank of India recently.

As many as 79.90 per cent of the requirements were unfulfilled at these centres in 2021 compared to 76.09 per cent in 2020. The two years were hit by Covid-19 waves.

Against a requirement of 20,732 health specialists, only 4,957 were in position at these centres in 2020. That means only 24 per cent of the requirement was met that year, showed data in 'RBI Handbook of Statistics on Indian States' for 2021-22.

Only 4,405 health specialists were there in these centres against the requirement of 21,924 in 2021, meaning that the shortfall increased from 76 per cent in 2020 to 80 per cent in 2021.

Nationwide 81 per cent of the requirement was not fulfilled in 2015, the previous year for which the data was available. This meant that the

Cong to file review petition in SC on

release of Rajiv murder convicts

The Congress will file a review petition in the Supreme Court

challenging the decision to release six convicts of the Rajiv

Gandhi assassination case, party sources said on Monday.

The petition will be filed this week, they said. "A fresh review

application challenging the Supreme Court decision to release

the convicts on the grounds set out in the order will be filed on

behalf of the party in the next few days," a party insider said.


Facing criticism from the Congress, the government last week

moved the Supreme Court seeking a review of its order for

premature release of the convicts in the case.


NOT IN THE PINK OF HEALTH

Requirement at community health centres In position Shortfall



availability of health experts at CHCs remained more or

In Gujarat and Himachal Pradesh, which are holding elections for their Assemblies, the situation is abysmally poor. As many as 1.280 health specialists were



less awfully short. This meant that only six per

cent of the requirement was met, leaving 94 per cent unfulfilled. In Himachal Pradesh, seven health experts were there against the requirement of

ALL IN A DAY

PTI

312. This meant that only two per cent of the requirement was met at CHCs.

As far as availability of allopathic doctors in primary health centres were concerned, the situation was not so bad. For instance, there were 25,140 doctors required in these centres. Of these, the shortfall was only 1084 which constituted just four per cent of the requirement.

Social spending

Hit by two waves of Covid, states saw a surge in social sector expenditure. The spending in 2019-20 was ₹14.1 trillion, which was just 5 per cent higher than ₹13.4 trillion in the previous year.

However, the expenditure rose 20.98 per cent to ₹17.1 trillion(Revised Estimates) in 2020-21 as the states undertook massive social welfare schemes for the poor and the Centre relaxed their fiscal deficit limits for the year, struck by the first Covid wave and nationwide lockdowns for a few months.

The expenditure again increased by 14 per cent to ₹19.4 trillion (Budget Estimates) in 2021-22 when the devastating second wave of Covid-19 hit the country.

ECONOMY & PUBLIC AFFAIRS 7

National Centre for Financial Education (NCFE) \bigcirc Promoted By: RBI, SEBI, IRDAI & PFRDA 6^e Floor, NISM Bhavan, Plot No. 82, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai

Maharashtra - 400 703 Phone: 022-68265115 Email id: info@ncfe.org.ir

EXPRESSION OF INTEREST

NCFE is inviting EOI for the selection of suitable agency for the development of Audio Visuals. Interested Service Providers may furnish their Expression of Interest with all the necessary documents on or before December 13, 2022. The EOI document may be downloaded from NCFE's website www.ncfe.org.in/tenders

ote: Corrigendum & addendum, if any, will be published online at www.ncfe.org.in

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135 001, Haryan Telephone No.: 01732-251810/11/14 Corporate Office: 2, Park Lane, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi -110 070

Email Id: investor.relations@jaispring.com Website: www.jaispring.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 108. Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 and Rule 22 f the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 o Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulation, 2015, General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated une 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circula No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No.10/2021 dated June 23 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 08, 2021 and Circular No. 03/2022 ated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India 'MCA Circulars") and all applicable circulars on the subject issued by SEBI, the Specia esolution for re-appointment of Mr. R.S. Jauhar, as Chairman & Executive Director for further term of 3 years w.e.f. January 01, 2023 till December 31, 2025 and remuneration payable to him is being proposed for consideration of the members of the Company fo sing by means of Postal Ballot by way of remote e-voting only.

he Company has dispatched the Postal Ballot Notice ("Notice") on November 21, 2022 only through electronic mode, to those members whose e-mail addresses were registered ith the Depositories/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') as on the ${
m cut-off}$ date e Tuesday November 15, 2022, Members whose email addresses are not registered with the RTA/Depositories, may follow the procedure to register their email address with the RTA/Deository as mentioned in the Notice. Please note that the physical copies o he Notice, Postal Ballot forms and pre-paid Business Reply Envelopes are not being ent to the members.

Please note that only those members, whose names are recorded in the register of nembers/list of beneficiaries maintained by the RTA/Depositories as on the cut-off date e. Tuesday, November 15, 2022 will be entitled to cast their vote by remote e-voting lembers holding shares in physical form or whose email addresses are not registered as on the cut-off date i.e. Tuesday, November 15, 2022 can cast their votes by following he procedure as provided in the Notice. The Notice is also available on the Company website at www.jaispring.com/Anual Financial Report.aspx? Finnancial Year=2023 and an also be accessed on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com an ww.nseindia.com and that of National Securities Depository Limited ("NSDL") a ww.evoting.nsdl.com. Members who have not received the Notice may download it from the above-mentioned websites.

The members are requested to provide their assent (FOR) or dissent (AGAINST) to the proposed resolution through e-voting only. The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing remote e-voting facility to the members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notice. The remote e-voting process will ommence on Tuesday, November 22, 2022 at 9:00 A.M. and will end on Wednesday December 21, 2022 at 5:00 P.M.The remote e-voting facility will be disabled by NSDL mediately thereafter

In case of any issues / queries connected with e-voting , members may contact to Ms Soni Singh, Assistant Manager, NSDL at evoting@nsdl.com or call on toll free no. o NSDL at 1800 1020 990 / 1800 224 430 or investor relations@jaispring.com

The Board of Directors of the Company has appointed M/s RSM & Co., Practicing Company Secretaries (Membership No. 4468) as the Scrutinizer for conducting this Postal Ballot process through remote e-voting, in a fair and transparent manner. The results along with the Scrutinizer Report of the Postal Ballot by e-voting will be announced on or before 05:00 P.M. on Friday December 23, 2022 and the same shall be available n the websites of the Company, NSDL, NSE and BSE

By order of the Board of Directors For Jamna Auto Industries Lto

Praveen Lakhera Place: Delhi Date: 22nd November, 2022 **Company Secretary & Head Lega**

PUBLIC NOTICE FOR REFUND OF FEES COLLECTED FOR INVESTMENT ADVISORY

Attention all the Complainants/Clients of Apex Globa

Autori an the Company - Apex Global Name of Company - Apex Global, Proprietor - Yadunath Singh Thakur Contact number - 7880220543, Email Id - yst1617@gmail.com Address - 214, Sector-A, Nyay Nagar, Extension Near Kalka Temple 452010 In compliance to the order of SEBI vid order no. WTM/ ASB/ WRO/ WRO/ 19764/ 2022-23 dated: 28th September, 2022, without prejudice to our legal rights to avail further remedies, we hereby invite claims for refund of fees collected in the name of Investment Advisory Services/ any other allied service, if any. Notices are, hereby, advised to submit following documents at the correspondence address along with an apolication for refund if they have not and any more of Investment

advised to submit following documents at the correspondence address along with an application for refund if they have paid any amount in the name of Investment advisory services. (a)Application for refund by Registered Post (RPAD - India Post) (b)Proof of payment of advisory fees (must include banking transaction details with account numbers) (c)Copy of PAN card (d)Copy of Proof of Address (e)A cancelled cheque. (f)A copy of the claim should be email to SEBI at indore-lo@sebi.gov.in for additional confirmation. All the applications must be received within 90 days of this publication. No claims whatsoever will be entertained on/or after 91st day of this publication. Only genuine claims with complete and valid documents will be processed. Refunds will be credited directly in the claimant's account That. Thouroh Mr. Yadunath Signt Thakur has not operated the said company.

documents will be processed. Refunds will be credited directly in the claimant's account. That, Though Mr. Yadunath Singh Thakur has not operated the said company the claim are invited in the interest of justice and this Notice shall not be constructed as admission of Guilt. (Proof of payment of advisory fees (must include banking trumaction details with accountNumbers) (c) Copy of PAN (d) Copy of Proof of Address (e) cancelled cheque (f) A copy of the claim should be email to Sat for additional confirmation All the applications must be received within 30 days of this publication. Not claims with complete and valid documents will be processed funds will be credited directly in the claemant's acount that, Though Mr. Yunath Singh Thakur has not operated the said company the claim are invited in the interest of justice and this Notice shall not be constructed at admission of Guit Date: 19/10/2022 Place: Indore Sd/-Yadunath Singh Thakur

BRG IRON & STEEL COMPANY PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)

EARLIER CIN: U27101WB2002PTC0954

NEW CIN : U27101UP2002PTC168863 LIQUIDATOR - CA. KANNAN TIRUVENGADAM (Reg. No. IBBV/PA-001/IP/P00253/2017-18/10482) Notice is given to the public in general that the following Asset Lot of BRG IRON & STEEL COMPANY PRIVATE LIMITED (In Liquidation) ("Corporate Debtor") is proposed to be sold in accordance with clause (c) of regulation 32, sub-regulation (1) of regulation 33 and Schedule I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 through e-auction platform. The interested applicants may refer to the detailed e-auction process memorandum available at https://hbid.nesl.co.in/appl/ogin or www.brogroup.in			
Date of Auction	December 19th 2	022	
Last Date for Submission of Bid Documents December 06th 2022			
Last Date for Submission of Earnest December 16th 2022 Money Deposit			
Particulars of The Asset	Reserve Price	Earnest Money Deposit	
Asset Lot - Sale of Nickel Ore (Steel Scrap) Lying at Vizag Port	INR 13,98,30,103.85 (Rupees Thirteen Crore Ninety Eight Lakhs Thirty Thousand One Hundred Three and Eighty Five Paise Onty)	INR 50,00,000.00 (Rupees Fifty Lakhs only)	
I. E-Auction will be held for sale of the Asset Lot of the Corporate Debtor on an "AS IS			

WHERE BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS" and "NO RECOURSE BASIS" without any representation, warranty or indemnity and will be conducted "online"

This Notice shall be read in conjunction with the Sale Process Memorandum dated November 22nd 2022 containing details of the Assets, online E-Auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of the E-Auction which are available on the https://nbid.nesl.co.in/app/login or www.brggroup.in. For further details please visit https://nbid.nesl.co.in/app/login or www.brggroup.in or send an e-mail to liquidation.brg@gmail.com

Disclaimer: The Advertisement purports to ascertain the interest of Bidders and does no reate any kind of binding obligation on the part of the Liquidator. The Liquidator reserves the right to amend and/or annul this invitation including any timelines or the process involve rein, without giving reasons, at any time, and in any respect. Any such amendment in the invitation, including the aforementioned timelines, shall be notified on the website of the Corporate Debtor at www.brogroup.in.

CA. KANNAN TIRUVENGADAM Reg. No. |BBI/IPA-001/IP-P00253/2017-18/10482 Liquidator for BRG IRON & STEEL COMPANY PRIVATE LIMITED Address: Netali Subhas Villa, 18 Karunamoyee Ghat Road Flat 3C, Kolkata 700082, West Bengal, India E-mail: liquidation.brg@gmail.com Place : Kolkata : November 22nd 2022 AFA valid till 16th December 2022



BOB CHENNAI ZONE DISBURSES RS.7.27 CRORES TO 168 FARMERS

In order to encourage



Mangaluru blast accused 'inspired by global terror groups': Police

Police found materials that go into making bomb from the rented house in Mysuru of Mangaluru autorickshaw blast accused Mohammed Shariq, who was "influenced and inspired" by a global terrorist organisation, a senior police officer said on Monday. Additional Director General of Police (Law and Order), Alok Kumar said the police are trying to find out the 24-year old's links with people outside Karnataka. "His handler was Abdul Mateen Taha from Suddaguntepalya (in Bengaluru) on whom the National Investigation Agency has announced a reward of ₹5 lakh," the ADGP said. PTI

TENDER CARE —

NRI & EXPORTER-IMPORTER MEET **ORGANIZED BY PUNJAB & SIND BANK**

Punjab & Sind Bank organized NRI & Importer-Exporter Customer Meet on 17, 11, 2022 at Hotel Best Western, Jalandhar, to further enhance its outreach amongst NRI and Importer- Exporter customers. The chief guest and chairman of the program was Kollegal V. Raghavendra ji, Executive Director from the Head

Office of the bank. In the program Praveen Kumar

and empower farmers and entrepreneurs in agriculture sector, Bank of Baroda has organised two week long Farmers' Festi-

VIRENDRA SINGH RAWAT

UTTAR PRADESH

The Uttar Pradesh government has announced a slew of incentives and subsidies to encourage private investors and create local jobs in the Information Technology and IT-enabled Services (ITeS) sector.

Under the new UP IT Policy promulgated recently, the Yogi Adityanath government is developing an IT City in each of the four regions – Purvanchal (Eastern UP), Paschimanchal (Western UP), Madhyanchal (Central UP), and Bundelkhand, Similarly, it will set up IT Parks in each of the 18 administrative divisions of the state.

To encourage investors, the government will provide a subsidy of 25 per cent or up to ₹20 crore for setting up IT Parks. Additionally, it will offer up to 100 per cent stamp duty exemption. At the same time, the state will provide a subsidy of 25 per cent or up to ₹100 crore on developing an IT City. The government will also encourage private IT firms to employ local vouth to avail of more pecuniary benefits. For example, on employing 30 locals, the state will provide a single-time recruitment assistance of ₹20,000 per student per year to the concerned enterprise.

Besides, the government will assist the students or employees to enhance their working skills in the field of emerging a senior official said.



The state will offer a subsidy of 25% or up to \gtrless 20 crore for setting up IT parks

technologies. For online or offline skill development curriculum in select institutions, the government will bear 50 per cent of the course fee, subject to the maximum support of ₹50,000.

Moreover, exemption will be provided to the private IT units employing women, SC/ST students, transgender, and specially-abled people. Such units will be eligible for the employees' provident fund reimbursement. This includes new units as well as units undertaking expansion.

Ahead of the proposed UP Global Investor Summit 2023, the state is amending existing policies to woo the private sector in a host of sectors. While some policies have been amended and promulgated, the rest are in the process of being finalised and cleared by the state Cabinet,

Jaipur, 21 November

ANII SHARMA

The Rajasthan government has decided to organise job fairs in every district of the state.

Chief Minister Ashok Gehlot said this after seeing the response the state government got in the recent job fairs in Jaipur and Jodhpur.

"I am happy that thousands of youths have got employment. In Jaipur, 3,000 youths have been given offer letters and 10,000 youths have been shortlisted for the next round," Gehlot said in a tweet. The chief minister said in Jodhpur

around 3,500 youths had received offer letters and 9,200 had been shortlisted.

The maximum package offered in these fairs was around ₹18 lakh per annum.

A senior official said the state government, apart from giving jobs in the government sector, was working on creating more employment in the private sector.

"It was due to the policies of the state government that a large number of investors across the country attended the Invest Rajasthan Summit and Memoranda of Understanding of ₹11 trillion were signed," he added.

The summit was held here on October 7 and 8. Approximately 3,000 delegates participated in various conclaves.



casion, Zonal Manager of the bank Jaspreet Singh Mann, Chief Manager Gyanchand and

Executive Director Raghvendra ji said that in today's competitive and tech-savvy era, Punjab and Sind Bank is constantly striving to provide better, innovative and convenient facilities to its customers. He said that the bank is providing facilities like

N RO/N RE/FCN R(B) Fixed Deposit Scheme, N RO/N RE Bank Accounts, Export/Import Services, Remittance Made Easy, Tax Benefits to its N RI and Importer-Exporter customers. Presently the bank is not only providing various loan facilities at lowest interest rates but also giving good interest rates to the customers on their savings. Bank has recently launched Special Fixed Deposit Schemes PSB Fabulous 300 Days(6.10%*), PSB Fabulous 601 Days(7.85%*)

KFC-FUNDED ENTERPRISES RECEIVE COSIDICI NATIONAL AWARDS 2022

Four enterprises funded by Kerala Financial Corporation (KFC) bagged the COSIDICI National Outstanding Entrepreneur 2022. The award winning enterprises are Aqua star from Thrissur, Dev Snacks from Kollam, Elegant Interior and Modular kitchen and Farmers Fresh Zone from Ernakulam. The awards were distributed by Shakuntala Rawat Ji, Minister of Industries and Commerce, Rajasthan Government, in the 8th Annual COSIDICI National Award function, held at Jodhpur, Raiasthan on November 17, 2022. Ronak R, Director of Dev Snacks, Ranjith K, Director of Elegant interior and modular kitchen were present at the venue to collect the awards. Saniav Kaul, IAS CMD, KFC and Premnath Ravindranath, Executive Director, KFC attended the function. Council of State Industrial Development and Investment Corporations of India (COSIDICI) is the umbrella organisation of all the State Level Financial Institutions

val Kisan Pakhwada Mongia, Field General Manager, Chandigarh, on an all India basis. Praveen Arora, Deputy In Tamilnadu and General Manager and

Date



Puducherry all 314 branches are celebrating this festival to help needy farmers with timely loan at attractive interest. In addition to providing loans, the idea is to educate farmers about how to connect more with bank and technology through various agriculture institutions. Speaking on the occasion, Dinesh Pant, Chief General Manager, Bank of Baroda said "Our bank is conducting this two week farmers program everywhere across India to understand the problems faced by farmers and how bank can support farmers by providing needed finance to farmers". Saravana Kumar, Zonal Head & General Manager said "Bank of Baroda is encouraging to sanction loans to SHGs since the repayment from the members of the SHGs are prompt, he also added Farmers shall prefer bank loans with lowest interest rate rather than loan from unorganised sector"

MAHESH KUMAR BAJAJ ASSUMES CHARGE AS EXECUTIVE DIRECTOR OF INDIAN BANK

Mahesh Kumar Bajaj assumed charge as Executive Director of Indian Bank. Before his elevation, Bajaj served as GM, heading the Transformation Management Office, Business Process Reengineering, Digitisation, Analytics Center of Excellence (ACOE), Marketing and Corporate Communication Departments of Indian Bank and was instru-



mental in successful amalgamation of Allahabad Bank into Indian Bank. Presently, he is on the Board and various committees of the Board of Universal Sompo General Insurance Company Limited as a Non-Executive Director. Bajaj has a rich banking experience of over 29 years, with stints in India and as Chief Executive officer of Indian Bank Singapore. During his tenure, he has worked in all key banking functions in various capacities viz., Corporate, Transaction, Retail, Rural, Treasury & FX, NPA Management, Human Resources & Internal Audit. He led the International Division, Integrated Treasurv and headed Large Credit Branches of the Bank as well. Baiai is a Postgraduate (M.Sc.) in Applied Mathematics, from Kurukshetra University and a Certified member of Indian Institute of Bankers.

CHHATTISGARH Financial services at ration shops soon

R KRISHNA DAS Raipur, 21 November

The Chhattisgarh government has decided to set up model fair-price shops (FPS) in each district and encourage owners to act as banking correspondents for providing financial services.

The state has around 12,300 fair-price shops across 33 districts. The state government is, however, encouraging FPS owners to provide a host of services besides acting as a banking correspondent."The model government fair-price shops will be started in all the districts of Chhattisgarh in a phased manner," the state's food secretary Topeshwar Vermasaid.

Department officials have been asked to start preparations. The shop will be identified in a district after consultation with the local administration, he added.

Apart from sale of other consumer goods along with ration material, the facility of banking correspondent will also be provided. FPS licence holders will find additional sources of income, Verma said.

Officials of the India Post Payments Bank, telecom department, oil companies and Civil Supplies Corporation have given a detailed presentation to the state officials for providing better facilities to consumers through the FPS.


Based on the suggestions, new services will be implemented in the FPS.

The department has also initiated the process of linking Aadhaar of ration card holders.

A target has been set to complete the workby the end of this month. The officials said the state government intended to transform FPS by launching a pilot project of model shops and taking initiatives to provide a common services centre (CSC) through the ration shops. The officials are also exploring the possibilities of selling small LPG cylindersthrough the shops and had detailed discussions with oil companies.

Besides banking correspondent services through tie-ups with banks, the shops will be allowed to sell other commodities and general store items.

Anil Kumar. Assistant General Manageralso graced the occasion. On this ocother officers were present



EIL WINS JOB FOR OVERALL PROJECT MANAGEMENT & EPCM SERVICES FOR **GROUP-II LOBS PROJECT AT MANALI REFINERY OF CPCL**

Engineers India Limited (EIL) has been entrusted by Chennai Petroleum Corporation Limited to render the Overall Project Management & EPCM Services for OHCU Revamp, CDWU and related Off-site facilities for Group-II LOBS Project at Manali Refinery.

As part of this assignment, EIL shall provide Consultancy Services for DFR & FEED preparation, Engineering, Procurement & Construction Management Services for OHCU Revamp, CDWU and related Off-site facilities for Group-II LOBS Project

at Manali Refinery of CPCL.

EIL is a leading global engineering consultancy and EPC company and has been providing its services ranging from project conception to commissioning since its inception in 1965.

EIL has diversified its operations in other sectors such as Fertilizers, Power, Water and Waste Management, Metallurgy, Nuclear, Strategic Storages, Infrastructure, Green Technologies etc. other than its robust Oil & Gas portfolio.










जनसता



कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)

ई--निविदा आमंत्रण सूचना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा "सिलीगुड़ी,पश्चिम बंगाल में सिविल, पीएचई और इलेक्ट्रिकल वर्क्स आदि सहित बाउंड़ी दीवार का निर्माण और एसटीपी संबद्ध कार्य और दोषों की अवधि के दौरान उनके रखरखाव" के लिए पात्र ठेकेदारों / फर्मों से खुली ई–निविदा आमंत्रित किया जाता है परियोजना की अनुमानित लागतः रु.3.32 करोड़, समापन अवधिः 09 महीने। इसके अलावा, अन्य विवरण दिनांक 22.11.2022 से एचएससीसी की वेबसाइट www.hsccltd.co.in, ई—टेंडर पोर्टल www.tenderwizard.com/HSCC और सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन विस्तृत एनआईटी और निविदा दस्तावेज में उपलब्ध हैं। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 07.12.2022 है। इस प्रकाशन के लिए शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल उक्त वेबसाइटों पर दिखाई देगा और उस् पकाशित नहीं किया जाएगा। महाप्रबंधक (परियोजनाए), एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

वेशेष प्रचालन विभाग-5वां तल, प्लॉट नं. 1, अंसल क्लासिक HDFC BANK टावर. ब्लॉक जे. रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 We understand your world सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी सूचना तिथि 9.11.2022 रिकॉल करने की सूचना

सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटरों को सचित किया जाता है कि प्रतिभुत क्रेडीटर के पास बंधक/प्रभारित अचल सम्पत्ति फ्लैट नं. डी-878, 1ला तल, न्यु फ्रैण्ड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110044 की ई-नीलामी बिक्री जो 24.11.2022 को निर्धारित थी, को रिकॉल/निरस्त किया जाता है क्योंकि ऋणधारक ने माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, कोर्ट-V, नई दिल्ली के समक्ष न्यायार्थ विचाराधीन आईबी-620/एनडी/2022 शीर्षक ''भारतीय स्टेट बैंक बनाम गिरीश भाटिया'' मे मार्टगैजर/गारंटर के विरुद्ध दिवाला तथा दिवालिया संहिता. 2016 की धारा 96 के अंतर्गत मौरेटोरियम के विषय में सूचना दी है। तदनुसार, प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा प्राप्त की गई ईएमडी वापस लौटाई जाएगी प्राधिकत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लि. तिथि: 21.11.2022, स्थान: नई दिल्ली

1	परिशिष्ट-IV, [नियम 8(1)]
	कब्जा सूचना
	(अचल सम्पत्ति के लिये)
	जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम,
	2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत सिटी बैंक एन. ए. इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा
	प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त
	शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 06.05.2022 जारी कर ऋणधारक नाम
	श्री श्याम एल कुमार (मृत) (द्वारा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों) तथा गारंटरों तथा मार्टगैजरों नाम
	एनए को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 61,42,144/-
	(रु.) इकसठ लाख बयालिस हजार एक सौ चौआलिस मात्र) के साथ उस पर 06.05.2022
	से वसूली तक 6.65% प्रति वर्ष की दर से ब्याज तथा 2% प्रतिवर्ष की दर से दंड ब्याज वापस लौटाने
	का निर्देश दिया था।
	ऋणधारक तथा गारंटर्स एवं मार्टगैजर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा
	राज्याध्याक तथा आप जनन को प्रतिन किया जान है कि आज 17 जनावा 2022 को अध्येत्वन्यभी

ऋणधाः दुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 17 नवम्बर, 2022 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों, गांरटरों तथा मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसार 17 नवम्बर, 2016 को रु. 64,06,916/- (रु. चौसठ लाख छ: हजार नौ सौ सोलह मात्र) तथ उस पर ब्याज के लिये सिटी बैंक एन.ए. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक, गांरटरों, मार्टगैजरों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। **अचल सम्पत्ति का विवरण:** के-38, प्रथम तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, प्लॉट क्षेत्रफल माप 311 वर्ग यार्ड्स तथा चौहदी इस प्रकार है:

पूर्वः प्लॉट नं. के-39, पश्चिमः प्लॉट नं. के-38ए, उत्तरः रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. के-33

तिथिः	17.11.2022		प्राधि	धकृत	अधि	कारी
स्थानः	नई दिल्ली सि	ાર્ટી	बैंक	एन.ए.	के	लिये



शाखा कार्यालय- आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 7वीं मंजिल कॉर्पोरेट पार्क, संजय प्लेस, आगरा- 282002

परिशिष्ट 17 (प्रातभात हित (प्रवतन) नियम, 2002 का नियम 8(1) दुखे। कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिक त अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढित धारा 13(12)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03.10.2019 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं अर्थात संजय कुमार वर्मा और ओम प्रकाश वर्मा को नोटिस में उल्लिखित राशि रु.19.58.057 / – (रुपये उन्नीस लाख अठावन हजार सत्तावन) मात्र) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चूकाने के लिए कहा गया। उधारकर्ताओं द्वारा राशि चूकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्ववारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न वर्णित संपत्ति पर 18 नवम्बर 2022 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रु.19,58,057 / – (रुपये उन्नीस लाख अठावन हजार सत्तावन मात्र) और उस पर ब्याज की राशि हेत् आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा ८ के प्रावधानों के अंतर्गत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 230, खसरा नंबर 198 और 199, बिहारी पूरम, मौजा बाबरपूर, हरि पर्वत, वार्ड आगरा यू.पी.– 282001 में 53.31 वर्ग मीटर के घर के भाग वाली संपत्ति का समस्त हिस्सा और अंश निम्न के रूप में सीमाबद्ध : पूर्वः श्रीमती राजश्री कुशवाहा से संबन्धित भूखंड संख्यगा 230 का अन्य भाग, पश्चिम : प्लॉट नं. 225, उत्तर : 15 फीट की रोड , दक्षिण : प्लॉट नं. 229,

दिनांकः 18.11.2022	प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः आगरा	आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

File No AR/196/2022-US-1-AR/463

GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS **CIVIL SECRETARIAT, BLOCK NO. 4,** 4th FLOOR

ITANAGAR - 791111 ADVERTISEMENT

Dated Itanagar the 21st November, 2022 The Governor of Arunachal Pradesh is pleased to invite applications from the citizens of India to fill up the following vacant posts in the Arunachal Pradesh Public Service Commission (APPSC) in terms of Article 316 of the Constitution of India.

1. Chairman, APPSC - 1 (one) No. 2. Member, APPSC - 3 (three) Nos

CAPRIGLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 सकिल कार्यालय : कैपी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9बी, दुसरी मंजिल, पसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेत विक्रय सचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार से कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित राशि की वसुली हेत निम्नलिखित तिथियों पर ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कछ भी है वहीं है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित है।

क्र. स.	1. कर्जदार(रों) का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य
	2. बकाया राशि	-	2. ईएमडी जमा करने की अन्तिम	
1.	1. श्री सचिन सोनी (''कर्जदार'')	बिल्ट–अप सम्पत्ति नंबर सी–126 और सी–	तिथि	3. वर्धित मूल्य
	2. श्रीमती शेफाली सोनी (सह-कर्जदार)	126ए (पुराना नंबर 151) के छत/टेरेस के	 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं 	आरक्षित मूल्य : रु. 16,05,000/-
	ऋण खाता सं. LNHLPRD000015109	अधिकार बिना, सेकंड फ्लोर बैक साइड	समय	(रुपये सोलह लाख पांच हजार मात्र)
	रुपये 18,04,173/- (रुपये अठारह लाख चार हजार	(आरएचएस भाग) का समस्त हिस्सा, क्षेत्रफल	1. ई-नीलामी की तिथि : 27.12.2022	जमा धरोहर राशि : रु. 1,60,000/-
	एक सौ तिहत्तर मात्र) तथा 21.11.2022 से प्रयोज्य भावी	50 वर्ग गज, यानी, 41.81 वर्ग मीटर, 200 वर्ग	(3:00 बजे अप. से 4:00 बजे अप.)	(रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
	ब्याज	गज के कुल क्षेत्रफल में से, खसरा नंबर 117/9	2. कवाइसा साहत इएमडा जमा करन का	वृद्धि मूल्य : रु. 10,000/-
		गण पर पुरस यामगरा में स, खरास गपर 11775	आन्तम तिथिः २६.१२.२०२२	(रुपये दस हजार मात्र)
		में से, गली नंबर 36, ग्राम पालम, कॉलोनी,	3. निरीक्षण की तिथि : 24.12.2022	(रान परा एगार गान)
		महावीर एन्क्लेव, ब्लॉक- सी, भाग-III, पश्चिमी		
		दिल्ली, नई दिल्ली-110077		

बिक्री के विस्तत नियम एवं शर्तों के लिए कपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्रतिभत लेनदार की वेबसाइट ऑनलाइन ई-नीलामी बिकी के नियम एवं शर्ते :

1. सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के है।

2. ई–नीलामी बिक्री सचना में सम्पत्ति/आस्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनसार लिखे गये हैं और प्रतिभत लेनदार किसी त्रटि. गलत बयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।

3. प्रतिभुत लेनदार द्वारा निर्गत ई–नीलामी बिक्री सुचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और प्रतिभुत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधान नहीं नहीं निर्मित करती है और न करती हुई मानी जायेगी। इच्छक संविदाकारों को अपनी संविदा/एँ जमा करने से पर्व सम्पत्ति/आस्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वतन्त्र पूछताछ/डुय डिलिजेंस संचालित करने की सलाह दी जाती है।

4. नीलामी केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे।

5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदा हेत ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. –079–68136880/68136837) श्री रामप्रसाद शर्मा, मोबाइल नं. 800–002–3297/79–6120 0559. ई–मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।

7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छूक संविदाकार को अग्रिम रूप से अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत कराना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।

8. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकार को आरक्षित मुल्य के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 26 दिसम्बर, 2022 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।

9. इच्छुक संविदाकार ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दुसरी मंजिल, पुसा रोड, नई दिल्ली–110005 के पास अधिकतम 26 दिसम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने हैं। मुहरबन्द लिफाफे प 'कर्जदार का नाम'' की सम्पत्ति हेत ऋण खाता सं. (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने हेत संविदा'' लिखना होना चाहिए।

10. ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और क्वालिफाइड संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपने कोट किये हैं और प्रतिभूत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि केवल वे ही संविदाकार ऑनलाइन इंटर-से बोली/नीलामी प्रक्रिया में ई-नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें।

11. क्वालिफाइड संविदाकारों के मध्य इंटर–से बोली क्वालिफाइड संविदाकारों द्वारा उच्चतम कोट की गयी बोली से प्रारम्भ होगी। इंटर–से बोली प्रक्रिया के दौरान ''10'' मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई–नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ जायेगा।

12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त युजर आईडी से लगायी गयी बोली केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी।

13. ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार ई-मेल द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 9बी, दुसरी मंजिल, पुसा रोड, नई दिल्ली-110005 तथा सेवा प्रदाता के पास ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने द्वारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि ई–मेल द्वारा करेगा।

14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के 24 घण्टे के भीतर जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वार बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चुक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।

16. सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।

17. सफल संविदाकार बिक्री मुल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मुल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जम करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हए तैयार की जायेंगी 19. बिक्री प्रमाणपत्र सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।

	2. Member, APPSC - 3 (three	· .
	The applicants must have outsta	Inding career profile
प्रपत्र बी	and academic excellence. The	detailed information
सार्वजनिक उद्घोषणा	in this regard and terms of appo	bintment and format
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया)	for application are available	
विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]	"https://arungovard.nic.in"	
वेनेस्सा मेटल्स एंड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ	The desiring candidates are ad	wight to shock the
क्रम विवरण विवरण	Ű,	
सं. 1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम वेनेस्सा मेटल्स एंड एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड	above website and submit appli	÷
2. कॉर्पोरेट ऋगधारक के निगमन की तिथि 26 मार्च, 2015	its enclosures in electronic form	÷
 वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, भारत, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 	below: - "secy-part-arn@nic.in	on or before 12th
निगमित/पंजीकृत है 	December, 2022".	
 कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान सं. U51909DL2015PTC278447 कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान ए-93, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट-2, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली, डीएल 110049 		Sd/-
कार्यालय (यदि कोई हो) का पता		Secretary (AR)
 इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि 11.01.2021 कॉपोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की 16.11.2022 	Government of /	Arunachal Pradesh
तिथि 18.11.2022 (परिसमापन आदेश प्राप्ति की तिथि)		DIPR/ARN/2708-14/2022
-8. परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी नामः आशीष सिंह प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00416/2017-2018/11230		
प्राप्तशनल को नाम तथा पंजाकरण संख्या पंजा.स.: IBB//IPA-002/IP-N00416/2017-2018/11230 9. बोर्ड में पंजीकृत समापक का पता तथा ईमेल पंजी.पताः प्रलैट नं. 901, टावर ए-3, क्लेव कन्ट्री, सेक्टर 121, नोएडा		
201301		
ईमेलः ashishsinghes@gmail.com 10. परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने 153ए, पाँचवा तल, टावर-ए, दि कॉरेन्थम, ए-41, सेक्टर-62, नोएडा,	उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन	उपखण्ड–तृतीय, सरस
वाला पता तथा ईमेल उ.प्र201301	लि0, ई—निविदा आमंत्रण सूचना,	अदद डीजल चालित
ई-मेलः vmapl.ip@gmail.com 11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसम्बर, 2022		
11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसम्बर, 2022 एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ V में 16 नवम्बर,	अनुभवी कार्यदायी संस्थाओ / फर्मो से	ड्राईवर के किराये पर ज
एतद्धारी सूचित किया जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विवि आवकरण, नई दिल्ली पीठे V में 16 नवम्बर, 2022 को वेनेस्सा मेटल्स एंड एलॉयज प्रा.लि. का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।	इस कार्यालय के नियन्त्रणाधीन	2.52 लाख। दिनांक 02
एतद्वारा वेनेस्सा मेटल्स एंड एलॉयज प्रा. लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि	विभिन्न पारेषण खण्डों के अन्तर्गत	17:00 बजे तक, दिनां
आईटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 22 दिसम्बर, 2022 को या उससे पूर्व अपने		`
दावे का प्रमाण जमा करें।	निम्नलिखित कायो हेतु ई–निविदाऐ	12:00 बर्ज, रू0
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य	ई—पोर्टल etender.up.nic.in पर	रू. 590 ∕ − 4.]
सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण	आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा	94/2022-23 (अल्पक
जमा कर सकते हैं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।	खुलनें की तिथि पर अवकाश होने की	विद्युत पारेषण खण्ड—प्र
दाव का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दाडत किया जा सकता है। श्री आशीष सिंह	5	0
वेनेस्सा मेटल्स एंड एलॉयज	स्थिति में ई–निविदा अगले कार्य	के अन्तर्गत उपखण्ड अ
तिथिः 22 नवम्बर, 2022 प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापक	दिवस मे खोली जायेगी। ई–निविदाओं	पारेषण उपखण्ड–प्रथ
स्थानः नोएडा पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00416/2017-2018/11230	को बिना कोई कारण बताये	हेतु एक अदद डीजल
	`	
	अस्वीकार⁄विभाजित करने का	को मय ड्राईवर के कि
🧼 जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास	हेतु। रू0 2.52 लाख।
CIN: L35911HR1965PLC004485	सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत	2022 सायः 17:00 बजे
पंजी. कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, यमुना नगर–135001, हरियाणा	जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों	03.12.2022 12:00
टेलीफोन नं.: 01732–251810 / 11 / 14 कॉर्पोरेट कार्यालय : 2, पार्क लेन, किशनगढ़, बसंत कुंज, नई दिल्ली–110070, भारत		
कीपारट कीयालय : 2, पाक लन, किशनगढ़, बसत कुज, नइ दिल्ला–110070, भारत ईमेल आईडी : investor.relations@jaispring.com, वेबसाईट: www.jaispring.com	एवं ई—निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक	2500 / —, रू.
डाक मतपत्र और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना	तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया	5. ETC/MU/T -
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, धारा	etender.up.nic.in पर लॉग आन	(अल्पकालिक):. विष
110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के		•
नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित , भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियम 44	करें। विवरण निम्न प्रकार है–	खण्ड–द्वितीय सहारनपु
(सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय,	ई–निविदा संख्या, कार्य का विवरण,	अधिशासी अभियन्ता के
भारत सरकार ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल,	कार्य की अनुमानित लागत, ई–पोर्टल	अद्द डीजल चालित
2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या	पर निविदा अपलोड करने की अन्तिम	ड्राईवर के किराये पर र
22 / 2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33 / 2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 39 / 2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 10 / 2021		
दिनांक 23 जून, 2021,सामान्य परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 और परिपत्र	तिथि एव समय, ई–पोर्टल पर निविदा	2.52 लाख। दिनांक 02
संख्या 03 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 तथा सेबी द्वारा जारी विषय पर सभी लागू परिपत्र के	का प्रथम भाग खोलने की तिथि एवं	17:00 बजे तक, दिनां
अनुसार, श्री आर.एस.जौहर की 3 साल की एक और अवधि के लिए अध्यक्ष और कार्यकारी	समय, धरोहर राशि एवं निविदा का	12:00 बजे, रू0 2
निदेशक के रूप में प्रभावी तिथि 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2025 तक की पुनर्नियुक्ति	मल्य (जी०एस०टी० सहित) के कम में	590 / - 1 6 F
मनं उन्हें नेम महिश्मीक के लिम निषेष मंकरम पर केवर निमेन ने जेतिंग के मध्यम में नाक		

एवं उन्हें देय पारिश्रमिक के लिए विशेष संकल्प पर केवल रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाक

mic excellence. The detailed information ard and terms of appointment and format ation are available on the website ungovard.nic.in" ng candidates are advised to check the osite and submit application along with all ires in electronic format at email id given secy-part-arn@nic.in on or before 12th , 2022". Sd/-Secretary (AR) Government of Arunachal Pradesh DIPR/ARN/2708-14/2022 ट्रांसमिशन कारपोरेशन उपखण्ड–तृतीय, सरसावा हेतु एक **विदा आमंत्रण सूचना,** अदद डीजल चालित वाहन को मय दिायी संस्थाओ∕फर्मो से ड्राईवर के किराये पर रखने हेतु। रू0 के नियन्त्रणाधीन 2.52 लाख। दिनांक 02.12.2022 सायः षण खण्डों के अन्तर्गत 17:00 बजे तक, दिनांक 03.12.2022 कायो हेतु ई—निविदाऐ 12:00 बजे, रू0 2500/-, etender.up.nic.in पर रू. 590/-| **4. ETC/MU/T-**जाती है। ई–निविदा 94/2022-23 (अल्पकालिक) थि पर अवकाश होने की विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम सहारनपुर ई—निविदा अगले कार्य के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत ली जायेगी। ई—निविदाओं पारेषण उपखण्ड—प्रथम, सहारनपुर कोई कारण बताये हेतु एक अदद डीजल चालित वाहन वेभाजित करने का को मय ड्राईवर के किराये पर रखने नधोहस्ताक्षरकर्ता के पास हेतु। रू0 2.52 लाख। दिनांक 02.12. हेगा। कृपया विस्तृत 2022 सायः 17:00 बजे तक, दिनांक ाउन लोड, अन्य संशोधनों 03.12.2022 12:00 बजे, रू0 दा प्रस्तुत करने के दिनांक 🛛 2500 / —, ক. 590 / --आदि के सम्बन्ध में कृपया 5. ETC/MU/T-95/2022-23 .nic.in पर लॉग आन (अल्पकालिक):. विद्युत पारेषण . संख्या, कार्य का विवरण, अधिशासी अभियन्ता के प्रयोगार्थ एक नुमानित लागत, ई–पोर्टल अदुद डीजल चालित वाहन को मय अपलोड करने की अन्तिम ड्राईवर के किराये पर रखने हेतु। रू0 नय, ई—पोर्टल पर निविदा 🛛 2.52 लाख। दिनांक 02.12.2022 सायः ाग खोलने की तिथि एवं 17:00 बजे तक, दिनांक 03.12.2022 र राशि एवं निविदा का 12:00 बजे, रू0 2500 ⁄ –, रू. मूल्य (जी0एस0टी0 सहित) के क्रम में 590 / – । 6. ETC/MU/T-जारो । १६/२०२२ २२ -विवास गाने

- 20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकस्मिक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता द्वारा किया जायेगा।
- 21. अधिकृत प्राधिकारों बिना कोई कारण बताये ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि के 15 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थगित की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 22. अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचिह्न रहित होगा।
- 23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।
- 24. सम्पत्ति में पडी हुई चल वस्तुएं बिक्री का हिस्सा नहीं हैं।

25. अधिक विवरण एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सुश्री स्वाति सिंह, मोबाइल नं. 7400445137/9235669225 तथा अन्य पूछताछ के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला-7738039346

26. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार कथित उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेत 30 (तीस) दिनों की सचना भी है।

विशेष निर्देश/चेतावनी : अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार के पक्ष पर किसी खामी/फेल्योर (इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे बैक–अप पॉवर सप्लाई तथा जो कछ भी अन्य अपेक्षित हो, कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 22 नवम्बर, 2022

ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



CIN: L14106UP1995PLC019017

Registered Office: Sector 128, Noida – 201 304, U.P. (India), Telephone: +91 (120) 2470800 Delhi Office: 'JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057 Telephone: +91 (11) 49828500 Fax: +91 (11) 26145389 Corporate Office: 64/4, Site 4, Industrial Area, Sahibabad, Distt. Ghaziabad-201010 Uttar Pradesh Telephone: +91(0120) 4963100, 4964100 Website: www.jalindia.com; E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 & 110 of Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [LODR] and the relaxations and clarifications issued by the Ministry of Corporate Affairs, (MCA), from time to time, the Company has on 21st November 2022, completed dispatch of Notice of Postal Ballot dated 12th November, 2022, through e-mail only, seeking the assent/dissent of the Members to the proposed Resolution.

Please note that:

- (a) The Notice has been sent to all the Members whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from Depositories i.e. National Securities Depository Limited ("NSDL")/Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on close of working hours on 11th November 2022.
- (b) The voting rights of the members/beneficial owners shall be reckoned on the Paid-up value of shares registered in the name of members as on the Cut-off date and any person who is not a member/beneficial owner as on Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- (c) In terms of MCA Circular last being General Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, and SEBI Circular last being Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, the Company has sent postal ballot notice only through email to all its members who have registered their email address with the Company or depository/depository participants and the communication of assent/ dissent of the members on the resolution proposed in this notice will only take place through e-voting system.
- (d) To facilitate such members to receive this notice electronically and cast their vote electronically, the Company has made special arrangements as per the process given below:
 - i) The members who have not registered their email address may send an email at jal.postalballot@jalindia.co.in by providing the particulars viz: Full Name; No of shares held as on the cut-off date; Folio number & Share certificate number (if shares held in physical form; DP ID & Client ID (if shares are in demat form); Email id;
 - ii) On receipt of the email, the member would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting, In case of any queries, member may write to jal.postalballot@jalindia.co.in
 - It is clarified that for permanent registration of change in name, registered address, email id, mobile no., PAN, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number. MICR code, IFSC code, nomination, power of attorney, etc., the members are required

पुर्व उत्तर वार सारमाय के सिर् विसंव संवर्त्य सर करने स्वित सिर्माट र वाह न के मोडवन से जवन मतपत्र के माध्यम से पास करने हेतु कंपनी के सदस्यों के विचारार्ध प्रस्तावित किया जा रहा है। कंपनी ने डाक मतपत्र नोटिस ("नोटिस") 21 नवंबर, 2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा है, जिनके ई—मेल पते कट—ऑफ तारीख यानी मंगलवार, 15 नवंबर, 2022 के अनुसार डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास पंजीकृत थे। जिन सदस्यों के ईमेल पते आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे नोटिस में उल्लिखित आरटीए/ डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं हैं, वे नोटिस में उल्लिखित आरटीए/ डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं हैं, वे नोटिस में उल्लिखित आरटीए/ डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत करने की प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि नोटिस की भौतिक प्रतियां, डाक मतपन्न फॉर्म और प्री—पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे सदस्यों को नहीं भेजे जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि केवल वे सदस्य, जिनके नाम कट—ऑफ तारीख यानी मंगलवार, 15 नवंबर, 2022 को आरटीए / डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/ लाभार्थियों की सूची के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे रिमोट ई—मतदान द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिनके ईमेल पते कट—ऑफ तारीख यानी मंगलवार, 15 नवंबर, 2022	 ETC/MU/T-91/2022-23 (अल्पकालिक) :- विद्युत पारेषण खण्ड, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत 220 के0वी0 डबल सर्किट नरा–मुजफ्फरनगर व नरा–जानसठ लाईन के अदृढ टावर सं0. 15 (DA+0) के स्थान पर नये टावर के इरेक्शन एवं अन्य सम्बन्धित 	96/2022-23 :- विद्युत पारेषण खण्ड—प्रथम सहारनपुर के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड—प्रथम, सहारनपुर हेतु एक अद्द डीजल चालित वाहन को मय ड्राईवर के किराये पर रखने हेतु। रू0 2.52 लाख। दिनांक 21.12.2022 सायः 17:00 बजे तक, दिनांक 22.12.2022 12:00 बजे, रू0 2500 / –, रू.	 b) for shares held in physical form: to their respective D1, and b) for shares held in physical form: to the Company RTA (M/s Alankit Assignments Limited) in prescribed Form No. ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/ MIRSD/ MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated November 3, 2021. Further, the Company has sent letters to the members holding shares in physical form to furnish the above mentioned details which are not registered in their respective folio no(s). (e) Voting on the Resolution proposed in this postal ballot is only through e-voting. The Company is pleased to provide facility for voting through electronic mode through Central Depository
तक पंजीकृत नहीं हैं, वे नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.jaispring.com/Anual Financial Report.aspx? Financial Year=2023 पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("छेकर") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है। जिन सदस्यों को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे उपरोक्त वेबसाइटों से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपनी सहमति (पक्ष) या असहमति (विरुद्ध) केवल ई-वोटिंग के माध्यम से प्रदान करें। कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया सूचना में वर्णित है। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया मंगलवार, 22 नवंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी और बुधवार, 21 दिसंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके तुरंत बाद रिमोट ई-वोटिंग से जुड़े किसी भी मुद्दे/प्रश्न के मामले में, सदस्य सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या एनएसडीएल की टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 / 1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं या invest.relations@jais- pring.com पर लिख सकते है। कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इस पोस्टल बैलेट प्रक्रिया को संचालित करने के लिए मैसर्स	03.12.2022 12:00 बजे, रू0 4000/-, रू. 590/-। 2. ETC/MU/T-92/2022-23 (अल्पकालिक) :. विद्युत पारेषण खण्ड, सहारनपुर के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता के प्रयोगार्थ एक अदद डीजल चालित वाहन को मय ड्राईवर	590 / - 7. ETC/MU/T- 97/2022-23:- विद्युत पारेषण खण्ड—द्वितीय सहारनपुर के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण उपखण्ड—प्रथम, देवबन्द हेतु एक अद्द डीजल चालित वाहन को मय ड्राईवर के किराये पर रखने हेतु रू0 2.52 लाख दिनांक 21.12.2022 सायः 17:00 बजे तक, दिनांक 22.12.2022 12:00 बजे, रू0 2500 / -, रू. 590 / - अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत	 e-voting's weblink https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp and will remain on such website until the last date of e-voting i.e. Thursday, the 22nd day of December, 2022 (IST 5.00 P.M.) (f) The e-voting will commence on Wednesday, the 23rd November, 2022 at IST 9.00 A.M. and will end on Thursday, the 22nd December, 2022 at IST 5.00 P.M. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter. (g) The Board of Directors of the Company has appointed Shri Ashok Tyagi, Practising Company Secretary (C.P. No.7322) as Scrutinizer and CS Neha Jain, Practising Company Secretary (C.P. No. 14344) as Alternate Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through e-voting process in fair and transparent manner in accordance with the provisions of the Act read with rules and MCA Circulars. (h) The result of Postal Ballot shall be declared on or before, 23rd December, 2022 at the Registered Office of the Company at Sector 128, Noida-201 304, U.P., India. It will be placed on the Notice Board of the Company at its Registered Office & Corporate Office and will also be hosted on the Company's web link www.jalindia.com/statutorycomm.html as well as CDSL's web-link https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp. The results shall also be communicated to BSE & NSE.
(स्माट इ-वाटिंग के माध्यम से इस परिटल बलट प्राक्रयों का संचालित करने के लिए मेसस आरएसएम एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या 4468) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग द्वारा पोस्टल बैलट की संवीक्षा रिपोर्ट के साथ परिणाम शुक्रवार 23 दिसंबर, 2022 को शाम 05:00 बजे या उससे पहले घोषित किए जाएंगे और यह कंपनी, एनएसडीएल, एनएसई और बीएसई की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा। निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्थान: दिल्ली दिनांक: 22 नवंबर, 2022 कंपनी प्रमुख	03.12.2022 12:00 बजे, रू0 2500/-, रू. 590/-। 3. ETC/MU/T-93/2022-23 (अल्पकालिक) :- विद्युत पारेषण खण्ड, सहारनपुर के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, विद्युत पारेषण	पारेषण मण्डल, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर, फोन नं०: 0131-2608038, पत्रांक/No. 125.2475/ वि०पा०म०(ETC) / मु०नगर(MZN)/दिनांक/ DATED 21.11.2022	Place: New Delhi Date: 21 st November, 2022